



# **SONI MEDICARE LTD.**

38, Kanota Bagh, Jawahar Lal Nehru Marg, JAIPUR-302 004 INDIA  
CIN No:- L51397RJ1988PLC004569  
Telephone : (0141) 5163700, Fax : (0141) 2564392  
E-mail : sonihospital@sonihospitals.com

Date: 15/02/2024

To,  
The Corporate Relations Department  
Bombay Stock Exchange Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort, Mumbai- 400001

**SCRIPT CODE: 539378 SCRIPT ID: SML**

**Sub: Submission of newspaper publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended 31<sup>ST</sup> December, 2023 under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir/ Madam

With reference to above, we hereby inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulations, 2015"), the extract of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2023 has been published by the Company in 15<sup>th</sup> February, 2024 editions of "The Financial Express" (English) and the "The Business Remedies" (Hindi).

The relevant copies of the said newspapers are enclosed herewith.


It may be noted that the aforesaid Unaudited Financial Results for quarter ended 31<sup>ST</sup> December, 2023 were approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 14<sup>th</sup> February, 2024 and the Outcome of the same has already been disclosed to the Stock Exchanges on 14<sup>th</sup> February, 2024 as per Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Kindly take the above information on your record.

Thanking you

Yours Faithfully,

For SONI MEDICARE LIMITED  
CIN: L51397RJ1988PLC004569

  
JUHI GURNANI  
(Company Secretary & Compliance Officer)



**OFFICE OF BLOCK DEVELOPMENT OFFICER BLOCK BHATTIYAT, DISTRICT CHAMBA (H.P.)**

Tel. No : 01899-266324 ; Email.ID : bdocbha-cha-hp@nic.in

**TENDER NOTICE**

The sealed tenders from reputed firms/contractors are hereby invited on ADVERTISED tender basis by the undersigned for common material items as per list mentioned in the tender document under the "MNREGA" in Block BHATTIYAT, Dist Chamba". The complete tender document can be obtained from office of the undersigned on below mentioned working days between 10am to 5.00 PM on payment of tender fee i.e. Rs. 500/- (Rupees Five Hundred Only). The firms contractor shall be employed for aforementioned materials during financial year 2024-25 subject to terms and condition mentioned in the tender document. Any corrigendum/ modification to bidding documents shall be published in the newspaper and bidders are advised to regularly read the newspaper before deadline for submission of tender.

Sr. No.	Name of Component	Sale of Tender	Pre-Bid Meeting	Last date of receipt of Tender & time	Date of opening of Tender & time
1	Common Material Items under "MNREGA" at Annexure "B"	15/02/2024 to 06/03/2024 Up to 5 PM	25/02/2024 at 11 AM	07/03/2024 Up to 3 PM	11/03/2024 at 11:00 AM

Block Development Officer,  
Development Block Bhattiyat,  
District Chamba (H.P.)

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance or advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**GVP INFOTECH LIMITED (FORMERLY KNOWN AS FOURTH DIMENSION SOLUTIONS LIMITED)**

Reg Office: Office no. 710, Naurang House, Kastiurba Gandhi (KG) Road, Connaught Place, New-Delhi-110001  
Tel: +91 11 41562293 www.gvpinfotech.com CIN: L74110DL2011PLC221111

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER 31ST DECEMBER, 2023**

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended					Year Ended	
		31-12-2023 (Unaudited)	30-09-2023 (Unaudited)	31-12-2022 (Unaudited)	31-12-2023 (Unaudited)	31-12-2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	873.85	477.08	706.99	2,686.35	1,161.69	2,147.47	452.47
2	Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(59.20)	12.63	169.15	(19.72)	313.17	452.47	452.47
3	Profit / (Loss) for the period after Exceptional (before tax and Extraordinary items)	(59.20)	12.63	169.15	(19.72)	313.17	449.39	449.39
4	Profit / (Loss) for the period (after tax)	(59.20)	12.63	169.15	(19.72)	313.17	449.39	449.39
5	Total Comprehensive Income (after tax)	(59.20)	12.63	169.15	(19.72)	313.17	449.39	449.39
6	Equity Share Capital	3,257.24	3,257.24	3,257.24	3,257.24	3,257.24	3,257.23	3,257.23
7	Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in the balance sheet of Previous Accounting Year)	-	-	-	-	-	-	-
8	Face Value	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Earning Per Share	-0.04	0.01	0.10	-0.01	0.19	0.28	0.28
	Basic & Diluted:	-0.04	0.01	0.10	-0.01	0.19	0.28	0.28

Notes  
1 The above results is an extracts of the detailed un audited Financial Results for the Quarter ended and Nine Months ended on December 31, 2023. The full format of un audited financial results of the Company for the Quarter & Nine Months ended on December 31, 2023 are available on the website of the stock exchange at www.nseindia.co.in and the website of the company at www.gvpinfotech.com  
For GVP Infotech Limited  
Sd/-  
Dhaval Mistry  
Director (DIN: 03411290)

Date: 14.02.2024  
Place: New-Delhi

**SONI MEDICARE LIMITED**

REGD OFFICE: 38, KANOTA BAGH, JAWAHAR LAL NEHRU MARG, JAIPUR 302004

CIN L51397RJ1988PLC004569, Email: cs@sonihospitals.com

Website: www.sonihospitals.com Contact No. 0141-5163700, FAX: 0141-2564392

**UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 31ST DECEMBER, 2023**

(amount in lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Nine Months ended		Year ended
		12/31/2023 (Unaudited)	9/30/2023 (Unaudited)	12/31/2022 (Unaudited)	12/31/2023 (Unaudited)	12/31/2022 (Unaudited)	3/31/2023 (Audited)
1	Income from Operations (Net) Other Operating Income	538.37	747.28	747.37	2,039.25	2,197.30	2,753.17
2	Profit and (Loss) before exceptional items and tax	(91.39)	4.86	8.45	(75.13)	27.58	(61.09)
3	Net Profit/ (Loss) for the Period after tax	(90.55)	2.67	7.28	(78.72)	23.37	(67.33)
4	Paid up share capital Face Value of Rs.10/- each	426.49	426.49	426.49	426.49	426.49	426.49
5	Basic and diluted EPS (Not Annualized) (Rs.)						
	Basic	(2.12)	0.06	0.17	(1.85)	0.55	(1.58)
	Diluted	(2.12)	0.06	0.17	(1.85)	0.55	(1.58)

Notes:  
(i) The above results have been reviewed and recommended for the adoption by the Audit Committee to the Board of Directors and have been approved by the Board of Directors at its meeting on 14th February, 2023.

(ii) The above is an extract of the detailed format of Quarterly audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.sonihospitals.com)

By Order of the Board of Directors  
For Soni Medicare Limited

Sd/-

Bimal Roy Soni  
(Managing Director)  
DIN: 00716246

Date : 15-02-2024  
Place : Jaipur

**SHERVANI INDUSTRIAL SYNDICATE LIMITED**

Regd. Off : Shervani Nagar, Sulem Sarai, Harwara, Prayagraj - 211015

CIN:L45202UP1948PLC001891

**Extract of Unaudited Financial Statement for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023**

S. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended 31.12.2023	Nine Month Ended 31.12.2023	Quarter Ended 31.12.2022	Year Ended 31.03.2023	Quarter Ended 31.12.2023	Nine Month Ended 31.12.2023	Quarter Ended 31.12.2022	Year Ended 31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from operations (Net)	1467	11674	264	2281	1,589	12,049	393	2,811
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary Items)	473	3,234	(19)	364	475	3,243	(16)	392
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary Items)	473	3,234	(19)	364	475	3,243	(16)	392
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary Items)	473	3,234	(19)	293	502	3,348	-	2,363
5.	Total Comprehensive Income for the Period (comprising Profit/Loss for the period (after tax and other Comprehensive Income (after tax))	406	3,235	(11)	298	435	3,349	8	2,368
6.	Equity Share Capital	272	272	272	272	272	272	272	272
7.	Other Equity excluding Revaluation Reserve	-	-	-	6811	-	-	-	8,812
8.	Earning per share (before extraordinary items) of Rs.10/- each (Not Annualized)								
	Basic (in Rs.)	17.37	118.89	(0.70)	10.76	18.46	123.09	-	86.87
	Diluted (in Rs.)	17.37	118.89	(0.70)	10.76	18.46	123.09	-	86.87

Note: 1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months ended upto date Financial Statement filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Company's Website at www.shervanilind.com and also can be accessed on the Website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

For Shervani Industrial Syndicate Limited  
Mustafa Rashid Shervani  
Managing Director  
DIN : 02379954

Place : Prayagraj  
Date : 14.02.2024

**GRAVISS HOSPITALITY LIMITED**

CIN: L55101PN1959PLC012761

Regd office: Plot no. A4 & A5, Khandala MIDC, Phase II, Kesurdi, Khandala, Satara- 412 801 (Maharashtra). www.gravisshospitality.com Tel. 022-62513131  
Email.: investors.relations@gravissgroup.com

**Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2023**

(₹ in lakhs)

Sr No	PARTICULAR	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31/12/2023 Unaudited	30/09/2023 Unaudited	31/12/2022 Unaudited	31/03/2023 Audited	31/12/2023 Unaudited	30/09/2023 Unaudited	31/12/2022 Unaudited	31/03/2023 Audited
1	Total Income from operations (net)	1,653	996	1,606	5,407	1,653	997	1,607	6,713
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	516	(243)	417	913	487	(262)	381	797
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	434	(212)	311	727	405	(230)	274	595
4	Other Comprehensive Income (after tax)	-	-	-	3	-	-	-	3
5	Total Comprehensive Income (after tax)	434	(212)	311	730	405	(230)	274	598
6	Equity Share Capital	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
7	Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualized)								
	(1) Basic (Rs):	0.62	(0.30)	0.44	1.04	0.58	(0.33)	0.39	0.85
	(2) Diluted: (Rs):	0.62	(0.30)	0.44	1.04	0.58	(0.33)	0.39	0.85

NOTE:  
The above Unaudited standalone and consolidated results for the quarter and nine months ended 31st December, 2023 which have been prepared in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and subjected to review by the Statutory Auditors of the Company and were reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors and the Board of Directors at their meeting held on 14-02-2024.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website www.gravisshospitality.com and Stock Exchange website (www.bseindia.com).

For Graviss Hospitality Limited  
Sd/-  
Romil Ratra  
CEO - Whole Time Director

Mumbai  
Date: 14-02-2024

**MUKTA ARTS LIMITED**

CIN:L92110MH1982PLC028180

Regd. Office : Mukta House, Behind Whistling Woods Institute, Filmcity Complex, Goregaon (East), Mumbai- 400 065. Tel. No. (022) 33649400. Website : www.muktaarts.com

**Statement of Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31<sup>st</sup> December, 2023**

(Rs in lakhs)

Particulars	Standalone						Consolidated					
	For the quarter ended			For the nine months ended			For the quarter ended			For the nine months ended		
	December 31, 2023 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	September 30, 2023 (Unaudited)	December 31, 2023 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)	December 31, 2023 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	September 30, 2023 (Unaudited)	December 31, 2023 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)
Total income from operations (net)	905.52	523.54	764.76	2,023.12	1,220.80	1,987.40	5,381.85	4,199.18	6,110.22	15,534.63	12,187.48	16,317.85
Net Profit / (Loss) (before tax, Exceptional items)	298.96	352.43	317.31	754.29	675.03	1,049.27	36.38	(276.19)	457.83	(1.53)	(1,132.16)	(1,746.58)
Net Profit / (Loss) before tax, (after Exceptional items)	298.96	352.43	317.31	754.29	675.03	1,049.27	36.38	(276.19)	457.83	(1.53)	(1,132.16)	(1,746.58)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	244.75	310.12	254.82	638.77	568.43	867.30	(6.67)	(292.98)	414.20	(67.27)	(1,186.93)	(1,858.70)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	240.19	310.12	254.82	727.24	568.43	843.38	(18.69)	(293.87)	432.17	-	(1,189.22)	(1,881.35)
Equity share capital (In Rs.)	112,926,000	112,926,000	112,926,000	112,926,000	112,926,000	112,926,000	112,926,000	112,926,000	112,926,000	112,926,000	112,926,000	112,926,000
Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic & Diluted	1.06	1.37	1.13	3.22	2.52	3.73	(0.08)	(1.30)	1.91	0.15	(5.27)	(8.33)

Note :  
1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of the Company at www.muktaarts.com and on BSE Limited at www.bseindia.com and on NSE Limited at www.nseindia.com.  
2) The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on February 14, 2024.  
3) These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent possible.

For Mukta Arts Limited  
For and on behalf of Board of Directors  
Sd/-  
Rahul Puri  
Managing Director  
DIN: 01925045

Date: February 14, 2023  
Place: Mumbai

## मुफिन ग्रीन फाइनेंस ने एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड में 45 फीसदी हिस्सेदारी अधिग्रहण की इच्छा जाहिर की



**बिजनेस रेमेडीज/जयपुर।** मुफिन ग्रीन फाइनेंस एक एनबीएफसी है जो इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी ने बीएसई-सूचीबद्ध एनबीएफसी एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड का अधिग्रहण करने के अपने इरादे का खुलासा किया है।

1984 में निगमित, एलकेपी फाइनेंस ने वित्त वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 21-22 में 55.5 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 में 95.6 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड का लक्ष्य 56,96,312 इक्विटी शेयर हासिल कर कंपनी में कुल शेयरधारिता का 45.32 फीसदी हासिल करें।

अधिग्रहण पूरा होने की सांकेतिक समयावधि मई 2024 है। कंपनी द्वारा अतिरिक्त 340 करोड़ रुपये लगाने की उम्मीद है जिससे कंपनी अपने हरित पोर्टफोलियो के विकास को सुविधाजनक बनाने में सक्षम होगी। मुफिन ग्रीन फाइनेंस के एमडी कपिल गर्ग ने कहा कि 'टिकाऊ परिवहन समाधानों की हमारी खोज में, एलकेपी फाइनेंस का अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह रणनीतिक उद्यम न केवल हमारे हरित पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा बल्कि हमें व्यक्ति, उपभोक्ता, बेड़े संचालक, और वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए वित्तपोषण समाधान की विविध रेंज की प्रेक्षक करने का अधिकार भी देगा।'

एलकेपी फाइनेंस के प्रमोटर एमवी दोशी ने टिप्पणी की, 'हमारा मानना है कि मुफिन ग्रीन फाइनेंस की दृष्टि और विशेषज्ञता हमारे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। यह निर्णय हमारी कंपनी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हमारे शेयरधारकों और हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। हमारा मानना है कि मुफिन ग्रीन फाइनेंस हरित ऊर्जा क्षेत्र में विकास को गति देगा, अपनी पहुंच का विस्तार करेगा और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करेगा। हमें विश्वास है कि यह अधिग्रहण सभी के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करेगा।'

## आर्टिफिशियल फ्लावर्स, प्लांट्स और डेकोरेटिव उत्पाद बनाने वाली कंपनी 'इंटीरियर्स एंड मोर लिमिटेड' का आईपीओ खुलेगा आज

42 करोड़ रुपए जुटा रही है कंपनी आईपीओ के जरिए, एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर खुलेगा आईपीओ, बुक बिल्ट इश्यू प्रणाली से 216 रुपए से 227 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 18,50,400 फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे

**बिजनेस रेमेडीज/मुंबई।** घरो, कारोबारी स्थानों व कार्यक्रमों को सजाने के लिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स, प्लांट्स और डेकोरेटिव उत्पाद बनाने वाली कंपनी 'इंटीरियर्स एंड मोर लिमिटेड' (पूर्व नाम इंटीरियर्स एंड मोर प्राइवेट लिमिटेड) का आईपीओ 42 करोड़ रुपए जुटाने हेतु आज खुल रहा है।

आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग कुछ ऋणों का पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाएगा। आईपीओ के बाद, कंपनी के शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म 'एनएसई इमर्ज' पर सूचीबद्ध किया जाएगा। गेटेक्स



कॉर्पोरेट सर्विसेज इस इश्यू की लीड मैनेजर हैं। आईपीओ 20 फरवरी, 2024 को बंद हो जाएगा। आईपीओ में 10 रुपए फेसवैल्यू के 18,50,400 फ्रेश इक्विटी शेयर हेतु किया जाएगा। आईपीओ के बाद, कंपनी के शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म 'एनएसई इमर्ज' पर सूचीबद्ध किया जाएगा। गेटेक्स

है जो आईपीओ की ऊपरी मूल्य सीमा 227 रुपए प्रति शेयर के आधार पर 1,36,200 रुपए के बराबर है। आईपीओ 35 शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। मार्केट मेकर के लिए 5% शेयर आरक्षित किए गए हैं। 2012 में निगमित, इंटीरियर्स एंड मोर लिमिटेड की स्थापना मनीष टिबरेवाल और राहुल झुनझुनवाला

ने की थी। कंपनी के पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स, गिफ्ट आइटम्स, घर, कार्यालयों और मॉल, बैंक्वेट हॉल आदि जैसे अन्य प्रतिष्ठानों के लिए सजावट कार्य करने के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव है। पिछले 12 वर्षों की अवधि में, कंपनी ने न सिर्फ घरेलू बाजार में आर्टिफिशियल फ्लावर्स और उनके द्वारा निर्मित अन्य सजावटी वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि की है, बल्कि चीन, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया से। अन्य घरेलू और श्राद्धी की सजावट के उत्पादों के आयात को शामिल करके अपने पोर्टफोलियो का विस्तार भी किया है। इन वर्षों में कंपनी कॉर्पोरेट, बीटूबी और बीटूसी सेगमेंट में एक मजबूत ग्राहक

बनाने में सक्षम रही है। कंपनी ने वित्तीय स्तर पर विकास और स्थिरता को प्रदर्शित करते हुए उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित की है। वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए कंपनी ने 25.27 करोड़ रुपये का राजस्व और 5.92 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी ने 9.98 करोड़ रुपये का कुल राजस्व एवं 1.04 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। 31 मार्च 2023 तक कंपनी की कुल असेट 9.96 करोड़ रुपए और कुल असेट्स 30.94 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी ने क्रमशः 18.53 करोड़ रुपए का राजस्व और 3.54 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

Shree Rajasthan Syntex Ltd.						
CIN - L24302RJ1979PLC001948						
Regd. Office : 27-A, First Floor, Meera Nagar, Housing Board Colony, Udaipur-313001						
Tel :-91-9314879380 ; Website-www.srsl.in ; E-mail - cs@srsl.in						
Extract of unaudited financial Results for the quarter and Nine months ended December 31, 2023						
(Rs. in lakhs, except per share data)						
S. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine months Ended		Year Ended 31.03.2023 (Audited)
		31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	
1	Total Income from Operation	692	3,283	1,195	5,278	
2	Net Profit/ (loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(556)	(1,449)	(757)	(4,309)	
3	Net Profit/ (loss) for the period before Tax(after exceptional and/or extraordinary items)	(556)	(1,451)	(757)	(4,322)	
4	Net Profit/ (loss) for the period after Tax(after exceptional and/or extraordinary items)	(556)	(1,451)	(757)	(4,329)	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(559)	(1,460)	(755)	(4,342)	
6	Paid up Equity share capital	1,370	1,370	1,370	1,370	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	-	-	-	(12,767)	
8	Earnings Per Share in Rupees (Face Value of Rs 10/- each) (not annualised)	(4.06)	(10.59)	(5.52)	(31.60)	
	2. Diluted (not annualised)	(4.06)	(10.59)	(5.52)	(31.60)	

सोनी मेडिकेयर लिमिटेड						
पंजीकृत कार्यालय: 38, कानोता बाग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004						
CIN L51397RJ1988PLC004569, ईमेल: cs@sonihospital.com						
वेबसाइट: www.sonihospital.com, संपर्क नंबर 0141-5163700, फॅक्स: 0141-2564392						
31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम						
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नैमाही	
		31.12.2023 (अनअंकेक्षित)	30.09.2023 (अनअंकेक्षित)	31.12.2022 (अनअंकेक्षित)	31.12.2023 (अनअंकेक्षित)	31.12.2022 (अनअंकेक्षित)
1.	परिचालन से कुल राजस्व (गुद्र)	538.37	747.28	747.37	2,039.25	2,197.30
	अन्य परिचालन राजस्व	28.48	49.79	18.81	98.39	46.59
2.	असहकारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ और (हानि)	(91.39)	4.86	8.45	(75.13)	27.58
3.	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	(90.55)	2.67	7.28	(78.72)	23.37
4.	पेडअप शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)	426.49	426.49	426.49	426.49	426.49
5.	मूल एवं तनुकृत ईपीएस (वार्षिक नही) (रु.)	(2.12)	0.06	0.17	(1.85)	0.55
	मूल तनुकृत	(2.12)	0.06	0.17	(1.85)	0.55

## बीएचईएल को हरियाणा सरकार से 800 मेगावाट क्षमता का बिजलीघर स्थापित करने का ठेका मिला

**बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली।** सार्वजनिक क्षेत्र की बीएचईएल को हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट का अत्याधुनिक बिजलीघर स्थापित करने का ठेका मिला है। बीएचईएल ने बयान में कहा कि 800 मेगावाट की दीनबंधु छेदू राम थर्मल पावर प्लांट (डीसीआरटीपीपी) हरियाणा की पहली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी-आधारित बिजली परियोजना होगी। कंपनी ने कहा, 'अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के तहत बीएचईएल ने एचपीजीसीएल (हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड) से हरियाणा के यमुनानगर में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) आधार पर 800 मेगावाट का अत्याधुनिक ताप बिजलीघर स्थापित करने का ऑर्डर हासिल किया है।' कंपनी के अनुसार, चालू होने पर यह संयंत्र राज्य में मौजूदा उप-महत्वपूर्ण इकाइयों की तुलना में अधिक कुशल मानक पेश करेगा और कम कोयले की खपत करेगा। प्रस्तावित 800 मेगावाट इकाई मौजूदा 300 मेगावाट की निकट स्थापित की जाएगी, जो वर्तमान में यमुनानगर में चालू है।

Particulars	STANDALONE						CONSOLIDATED					
	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended		
	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
Total Income from Operations (Net)	347.72	349.68	395.53	1,139.59	1,247.14	1,420.59	347.72	349.68	395.53	1,139.59	1,247.14	1,420.59
Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	26.32	33.09	76.06	125.61	177.87	202.05	26.32	33.09	76.06	125.61	177.87	202.05
Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	26.32	33.09	76.06	125.61	177.87	202.05	26.32	33.09	76.06	125.61	177.87	202.05
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items & Share of profit of Associates)	20.82	26.56	59.14	99.73	126.99	144.82	54.09	526.04	(246.45)	977.87	(177.96)	(406.88)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	20.78	26.26	59.02	99.19	125.26	143.75	67.58	535.00	(224.72)	1,002.26	(203.19)	(418.79)
Equity Share Capital	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73
Other Equity (reserves) as shown in balance sheet of the previous year	-	-	-	-	-	1,621.59	-	-	-	-	-	14,614.89
Earning Per Share (of ₹ 1 each) (before and after Extra ordinary items) (not annualised except for year ended results)												
Basic	0.04	0.05	0.10	0.17	0.22	0.25	0.09	0.90	(0.42)	1.68	(0.30)	(0.70)
Diluted	0.04	0.05	0.10	0.17	0.22	0.25	0.09	0.90	(0.42)	1.68	(0.30)	(0.70)